



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 2 मई, 2022

बैशाख 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 11/2022/526/तीस-4-2022-17(सा0)-2018

लखनऊ, 2 मई, 2022

अधिसूचना

सा0प0नि0-27

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा- 65, 95, 96, 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित प्रारूप, अधिसूचना संख्या-01/2022/03/तीस-4-2022-17 (सा)-2018, दिनांक 04 जनवरी, 2022 गजट में प्रकाशित किया गया था ;

और चूंकि प्रस्तावित नियमावली के संबंध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा- 65, 95, 96, 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्टाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (अट्टाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 222-घ
का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 222 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(2) डीजल/सी0एन0जी0 चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

(3) डीजल/पेट्रोल/सी0एन0जी0 अथवा किसी अन्य स्वच्छ ईंधन चालित विद्यालय वैन, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2) डीजल/सी0एन0जी0 चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

(3) डीजल/पेट्रोल/सी0एन0जी0 चालित विद्यालय वैन, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

नियम 222-ठ
(1) का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम 222-ठ में, उपनियम (1) में,—

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ख) में आवश्यक रूप से एक आपातकालीन द्वार और एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 सेमी0X120 सेमी0 होगा, जिसे अन्दर की ओर से और बाहर की ओर से भी खोला जा सकता है। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पश्च भाग की ओर होगी, जो 150 सेमी0X120 सेमी0 के आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जिसे एक स्थायी फ्रेम में फिक्स किया गया होगा। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख) मिनी और मिडी बसों से भिन्न बसों में सेवा द्वार के विपरीत दिशा में एक आपातकालीन निकास होगा। इसके अतिरिक्त, बस के पीछे की ओर एक आपातकालीन निकास होगा। तथापि मिनी और मिडी बसों की दशा में न्यूनतम एक आपातकालीन निकास होगा और यह सेवा द्वार के विपरीत या बस के पीछे की तरफ स्थित होगा। आपातकालीन द्वार का निचला किनारा, बस के तल के स्तर पर होगा और ऊपरी किनारा खिड़की के ऊपरी किनारे के स्तर पर होगा। आपातकालीन निकास की चौड़ाई 550 मिमी होगी।

(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड(ज) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ज) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट लगाई जायेंगी।

(तीन) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ड-एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा:

परन्तु यह कि स्कूल बसों की दशा में, बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए, बैठने की क्षमता के 1.5 गुना की अनुमति होगी।

(चार) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ड), (ण) एवं (त) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ज) में सीट बैल्ट लगायी जायेंगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ढ) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

(ण) में सी०सी० टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

(त) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।

(2) उपनियम (2) में,-

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ग) में एक आपातकालीन द्वार एवं एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से0मी0X120 से.मी. होगा, जिसे भीतर एवं बाहर दोनों ओर से खोला जा सके। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पीछे की ओर होगी, जो 150 से0मी0X120 से.मी. में आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जो एक स्थायी फ्रेम में फिक्स होगी। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था अवश्य की जाएगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ढ) यान लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र से अवश्य युक्त होगी। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(ण) में सी०सी० टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(त) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में, परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। ऐसी बस में यथासम्भव एक अध्यापक भी यात्रा कर सकता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) मिनी और मिडी बसों से भिन्न बसों में सेवा द्वार के विपरीत एक आपातकालीन निकास होगा। इसके अतिरिक्त, बस के पीछे की ओर एक आपातकालीन निकास होगा। तथापि मिनी और मिडी बसों की दशा में न्यूनतम एक आपातकालीन निकास होगा और यह सेवा द्वार के विपरीत या बस के पीछे की तरफ स्थित होगा। आपातकालीन द्वार का निचला किनारा बस के तल के स्तर पर होगा और ऊपरी किनारा खिड़की के ऊपरी किनारे के स्तर पर होगा। आपातकालीन निकास की चौड़ाई 550 मि0मी0 होगी।

(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (छ) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(छ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(छ) में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।

(तीन) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ढ-एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा:

परन्तु यह कि स्कूल बसों की दशा में, बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए, बैठने की क्षमता के 1.5 गुना की अनुमति होगी।

(चार) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ण), (त) एवं (थ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ण) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ण) यान लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र से अवश्य युक्त होगी। यह उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(त) में सी0सी0 टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

(थ) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।

(3) उपनियम (3) में,-

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(घ) एक फर्स्ट-एड बाक्स तथा एक 5 किग्रा0 के बी0आई0एस0 मार्क के एक अग्नि शामक यन्त्र से सुसज्जित होगी।

(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(च) की समस्त सीटें सीट बैल्ट से सुसज्जित होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(घ) एक फर्स्ट-एड बाक्स तथा एक 02 किग्रा0 के बी0आई0एस0 मार्क के एक अग्नि शामक यन्त्र से सुसज्जित होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(च) में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।

(तीन) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ज-एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा:

परन्तु यह कि स्कूल बसों की दशा में, बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए, बैठने की क्षमता के 1.5 गुना की अनुमति होगी।

(चार) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (झ), (ञ) एवं (ट) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(झ) में यान लोकेशन ट्रैकिंग यन्त्र अवश्य लगा होना चाहिए। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त होगा।

(ञ) ऐसे विद्यालय बसों में सी0सी0 टीवी कैमरे का उपबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

(ट) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और यदि बालिका विद्यार्थी हो तो परिचर महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(झ) में यान लोकेशन ट्रैकिंग यन्त्र अवश्य लगा होना चाहिए। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(ञ) ऐसे विद्यालय बसों में सी0सी0 टीवी कैमरे का उपबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(ट) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और यदि बालिका विद्यार्थी हो तो परिचर महिला होनी चाहिए।

4- उक्त नियमावली में, नियम 222-ड में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड नियम 222-ड का संशोधन

(ख-एक) "मिडी बस" का तात्पर्य ऐसी किसी ओमनी बस से है जिसकी जिनकी सीटिंग क्षमता 23 से 37 तक हो।

(ख-दो) "मिनी बस" का तात्पर्य ऐसी किसी ओमनी बस से है, जिसकी सीटिंग क्षमता 13 से 22 तक हो।

5- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर0-21क एवं प्रपत्र एस0आर0-21ख के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

एस0आर0-21क एवं
एस0आर0-21ख
का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-21क

[नियम-222 घ(2) देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए
आवेदन-पत्र
(यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार
हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,
राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा
69, 73, और 80 के उपबन्धों के
अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-21क

[नियम-222 ख(2) देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए
आवेदन-पत्र
(यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार
हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,
राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा
69, 73, और 80 के उपबन्धों के
अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के
सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन
करता हूँ/करते हैं-

1- पूरा नाम.....

2- किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का
नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा
स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का
नाम.....

3- आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति,
कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि
हो.....

4- पूरा पता-

(क)

स्थायी.....

(ख)

वर्तमान.....

(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड,
विद्युत बिल अथवा ऐसे किसी अन्य विधिमान्य
दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक होगी, जो परिवहन प्राधिकरण का
समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में
संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी
विलेख की प्रतिलिपि से सहायक होगी)

5-क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित
है..

6-यान का प्रकार, इसका मॉडल और
रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के
सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन
करता हूँ/करते हैं-

1- पूरा नाम.....

2- किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का
नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा
स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का
नाम.....

3- आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति,
कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि
हो.....

4- पूरा पता-

(क)

स्थायी.....

(ख)

वर्तमान.....

(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड,
विद्युत बिल अथवा ऐसे किसी अन्य विधिमान्य
दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक होगी, जो परिवहन प्राधिकरण का
समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में
संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या
भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से सहायक होगी)

5-क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित
है..

6-यान का प्रकार, इसका मॉडल और
रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....

7-रजिस्ट्रीकृत सीटों की
क्षमता.....

8-ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का
विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो
कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....

9-क्या विद्यालय के साथ ठेका हुआ है-
हाँ/नहीं

10-आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य
मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या समरूप
प्राधिकार) का विवरण.....

(क) इस यान के सम्बन्ध में-

परमिट द्वारा जारी क्षेत्र विधिमान्यता
संख्या किया गया की अवधि

7-रजिस्ट्रीकृत सीटों की
क्षमता.....

8-ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का
विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया
हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....

9-क्या विद्यालय के साथ ठेका हुआ है-
हाँ/नहीं

10-आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य
मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या समरूप
प्राधिकार) का विवरण.....

(क) इस यान के सम्बन्ध में-

परमिट द्वारा जारी क्षेत्र विधिमान्यता
संख्या किया गया की अवधि

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-

11- आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान
के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में
पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का
विवरण, जो किसी आदेश के अधीन
निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा
हों, ब्यौरा दें.....

12- क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित
यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन
रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि ऐसा
कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान
अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न
करें, यदि नहीं किया गया है, तो बकाया
का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी
का प्रमाण-पत्र सहायक होगा।).....

13- भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये
और सामान रखने और उसकी सुरक्षित
अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का
ब्यौरा.....

14- यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के
सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-
पत्र इसके साथ संलग्न है.....

15- मैंने/हमनेरूपये की विहित आवेदन-
पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त
कर दिया है

16- मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त
नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते
हैं कि परमिट तब तक जारी नहीं किया
जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण
पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।

17- मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-

11- आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के
उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले
चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का
विवरण, जो किसी आदेश के अधीन
निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा
हों, ब्यौरा दें.....

12- क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित
यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन
रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि ऐसा
कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान
अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें,
यदि नहीं किया गया है, तो बकाया का
ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का
प्रमाण-पत्र सहायक होगा।).....

13- भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये
और सामान रखने और उसकी सुरक्षित
अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का
ब्यौरा.....

14- यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के
सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-
पत्र इसके साथ संलग्न है.....

15- मैंने/हमनेरूपये की विहित आवेदन-
पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त
कर दिया है

16- मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त
नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते
हैं कि परमिट तब तक जारी नहीं किया
जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण
पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।

17- मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं

कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।

कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक.....

दिनांक.....

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

* जो भी लागू न हो उसे काट दें।

* जो भी लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा।

कार्यालय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा।

1- प्राप्ति का दिनांक.....

1- प्राप्ति का दिनांक.....

2- आवेदन का दिनांक.....

2- आवेदन का दिनांक.....

3- दिनांक.....

3- दिनांक.....

सदस्यों को परिचालन.....

सदस्यों को परिचालन.....

बैठक में विचार का दिनांक.....

बैठक में विचार का दिनांक.....

अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय.....

अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय.....

4- स्वीकृत.....

4- स्वीकृत.....

उपान्तरिक रूप में

उपान्तरिक रूप में

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

स्वीकृति.....

अस्वीकृत.....

5- परमिट की संख्या.....

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

स्वीकृति.....

अस्वीकृत.....

5- परमिट की संख्या.....

सचिव

संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....

प्रपत्र एस0आर0-21ख

[नियम-222 ब(3)देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए
आवेदन-पत्र

(यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा संरक्षक के
मध्य करार हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

.....

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69,
73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम,
अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त अधिनियम की
धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में
परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता
हूँ/करते हैं-

1- पूरा
नाम.....

2- किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम
और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा
स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का
नाम.....

3- आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी
या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि
हो.....

4- पूरा पता-

(क) स्थायी.....

सचिव

संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....

प्रपत्र एस0आर0-21ख

[नियम-222 ब(3)देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए
आवेदन-पत्र

(यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा संरक्षक के
मध्य करार हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

.....

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69,
73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम,
अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त अधिनियम की
धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में
परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता
हूँ/करते हैं-

1- पूरा
नाम.....

2- किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम
और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा
स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का
नाम.....

3- आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी
या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि
हो.....

4- पूरा पता-

(क) स्थायी.....

(ख) वर्तमान.....

(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि पत्र जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम जापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित होगा)

5- क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है.....

6- यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....

7- रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता.....

8- ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....

9- क्या विद्यालय अथवा संरक्षक के साथ करार हस्ताक्षरित हुआ है.....

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली यान या ठेका यान परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण.....

(क) इस यान के सम्बन्ध में-

परमिट द्वारा जारी क्षेत्र विधिमान्यता संख्या किया गया की अवधि

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-

11- आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें.....

12- क्या उपरोक्त कथित परमितों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया है, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र समर्थित होगा).....

13- भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का विवरण.....

14- यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है.....

15- मैंने/हमनेरूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है.....

(ख) वर्तमान.....

(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि पत्र जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम जापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित होगा)

5- क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है.....

6- यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....

7- रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता.....

8- ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....

9- क्या विद्यालय अथवा संरक्षक के साथ करार हस्ताक्षरित हुआ है.....

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली यान या ठेका यान परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण.....

(क) इस यान के सम्बन्ध में-

परमिट द्वारा जारी क्षेत्र विधिमान्यता संख्या किया गया की अवधि

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-

11- आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें.....

12- क्या उपरोक्त कथित परमितों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया है, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र समर्थित होगा).....

13- भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का विवरण.....

14- यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है.....

15- मैंने/हमनेरूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है.....

16- मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।
17- मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।
दिनांक

आवेदक/आवेदकों के

हस्ताक्षर या अंगूठे का
निशान

16- मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।
17- मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।
दिनांक

आवेदक/आवेदकों के

हस्ताक्षर या
अंगूठे का
निशान

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

- * जो भी लागू न हो उसे काट दें।
कार्यालय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा।
1- प्राप्ति का दिनांक.....
2- आवेदन का दिनांक.....
3- दिनांक.....
सदस्यों को परिचालन.....
बैठक में विचार का दिनांक.....
अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय.....
4- स्वीकृत.....
उपान्तरिक रूप में स्वीकृति.....
अस्वीकृत.....
5- परमिट की संख्या.....

सचिव

संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....

प्रपत्र एस0आर0-
23क का
संशोधन

6- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर0-23क के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-23क
[नियम-222 ब(1)देखिये]

शिक्षा संस्था बस परमिट स्वीकृति हेतु आवेदन
सेवा में,

संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70
और 71 के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम
अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा अधिनियम की धारा-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

- * जो भी लागू न हो उसे काट दें।
कार्यालय परिवहन प्राधिकरण द्वारा भरा जायेगा।
1- प्राप्ति का दिनांक.....
2- आवेदन का दिनांक.....
3- दिनांक.....
सदस्यों को परिचालन.....
बैठक में विचार का दिनांक.....
अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय.....
4- स्वीकृत.....
उपान्तरिक रूप में स्वीकृति.....
अस्वीकृत.....
5- परमिट की संख्या.....

सचिव

संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-23क
[नियम-222 ब(1)देखिये]

शिक्षा संस्था बस परमिट स्वीकृति हेतु आवेदन
सेवा में,

संभागीय परिवहन प्राधिकरण,

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70
और 71 के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम
अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा अधिनियम की धारा-

66 के अधीन विद्यालय बस/विद्यालय यान परमिट के लिए आवेदन करता हूँ।

- 1- पूरा नाम.....
2- पिता/पति का नाम.....
3- आयु.....
4- पूरा पता.....

(क) स्थायी-

(ख) वर्तमान-(किसी व्यक्ति की दशा में राशन कार्ड, विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हो और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित हो).....

5- दूरभाष संख्या.....

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

6. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है.....
7. विद्यालय का नाम और समय
1.....
2.....
3.....
4.....
8. बैठने की क्षमता.....
9. यान का प्रकार ,इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
10. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं.....
11. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यान क्रय कर प्रस्तुत करूंगा।
12. मैं/हम एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य हैं।
दिनांक.....
स्थान.....

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

66 के अधीन विद्यालय बस/विद्यालय यान परमिट के लिए आवेदन करता हूँ।

- 1- पूरा नाम.....
2- पिता/पति का नाम.....
3- आयु.....
4- पूरा पता.....

(क) स्थायी-

(ख) वर्तमान-(किसी व्यक्ति की दशा में राशन कार्ड, विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हो और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित हो).....

5- दूरभाष संख्या.....

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

6. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है.....
7. विद्यालय का नाम और समय
1.....
2.....
3.....
4.....
7क. वह रीति जिसमें किराये या पारिश्रमिक के लिए या आवेदक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारबार के सम्बन्ध से भिन्न व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन की पूर्ति यान द्वारा की जायेगी.....
8. बैठने की क्षमता.....
9. यान का प्रकार ,इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
10. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं.....
11. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यान क्रय कर प्रस्तुत करूंगा।
12. मैं/हम एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य हैं।
दिनांक.....
स्थान.....

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

(संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	(संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
1. रसीद का दिनांक	1. रसीद का दिनांक
2. बैठक में विचार का दिनांक	2. बैठक में विचार का दिनांक
3. दिनांक.....स्वीकृत/अस्वीकृत	3. दिनांक.....स्वीकृत/अस्वीकृत
4. परमिट की संख्या.....	4. परमिट की संख्या.....
सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....	सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....
7- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर0 27क एवं एस0आर0 27ख के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-	
	प्रपत्र एस0 आर0-27क एवं एस0आर0- 27ख का संशोधन

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र
प्रपत्र एस0आर0-27क
[नियम 222 ब(2)देखिये]

- ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट
(यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)
.....परिवहन प्राधिकरण
परमिट संख्या
1. धारक का नाम
 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)
 3. पता-
(एक)स्थायी.....
(दो) वर्तमान.....
 4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
.....
(दो) माडल.....
(तीन) चैसिस संख्या.....
(चार) इंजन संख्या.....
(पाँच) यान का वर्ग.....
(छः) वाहनके साथ अवक्रय करार के अधीन है।
 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है.....
 6. परमिट के अवसान का दिनांक.....
 7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर.....
 8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में अधिकथित शर्तों के अधीन

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र एस0आर0-27क
[नियम 222 ख(2)देखिये]

- ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट
(यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)
.....परिवहन प्राधिकरण
परमिट संख्या
1. धारक का नाम
 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)
 3. पता-
(एक)स्थायी.....
(दो) वर्तमान.....
 4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
.....
(दो)माडल.....
(तीन) चैसिस संख्या.....
(चार) इंजन संख्या.....
(पाँच) यान का वर्ग.....
(छः)वाहनके साथ अवक्रय करार के अधीन है।
 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है.....
 6. परमिट के अवसान का दिनांक.....
 7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर.....
 8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में अधिकथित शर्तों के अधीन

- | | |
|---|---|
| <p>होगी।</p> <p>9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी.....</p> <p>10. अन्य शर्तें-</p> <p>(1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्विनीत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।</p> | <p>होगी।</p> <p>9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी.....</p> <p>10. अन्य शर्तें-</p> <p>(1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्विनीत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।</p> |
|---|---|

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र

(2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्घाटित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है।

(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है :-

परन्तु विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्घाटित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है।

(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है :-

परन्तु विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11. कोई अन्य शर्त.....

दिनांक.....

सचिव,

.....परिवहन प्राधिकरण

12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक.....

सचिव

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र नवीकरण

यह परमिट एतद्वारा दिनांक से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है।

(1)

(2)

(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न किन्हीं शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगा।

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

.....परिवहन प्राधिकरण,

संख्या.....

निम्नलिखित परिवर्तन (variation) के अध्यधीन मार्ग/क्षेत्र.....के लिए प्रतिहस्ताक्षरित-

(1)

(2)

(3)

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11. कोई अन्य शर्त.....

दिनांक.....

सचिव,

.....परिवहन प्राधिकरण

12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक.....

सचिव

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र नवीकरण

यह परमिट एतद्वारा दिनांक से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है।

(1)

(2)

(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न किन्हीं शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगा।

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

.....परिवहन प्राधिकरण,

संख्या.....

निम्नलिखित परिवर्तन (variation) के अध्यधीन मार्ग/क्षेत्र.....के लिए प्रतिहस्ताक्षरित-

(1)

(2)

(3)

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा,
.....तक नवीकृत किया
जाता है।
दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा,
.....तक नवीकृत
किया जाता है।
दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रपत्र एस0आर0-27ख**[नियम 222 घ(3)देखिये]****ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट**

(यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा अभिभावक
के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)

..... परिवहन प्राधिकरण

परमिट संख्या

1.धारक का नाम

प्रपत्र एस0आर0-27ख**[नियम 222 ख(3)देखिये]****ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट**

(यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा अभिभावक
के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)

..... परिवहन प्राधिकरण

परमिट संख्या

1.धारक का नाम

स्तम्भ-1**विद्यमान प्रपत्र**

2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)
.....
3. पता-
(एक) स्थायी.....
(दो) वर्तमान.....
4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
(दो) माडल.....
(तीन) चैसिस संख्या.....
(चार) इंजन संख्या.....
(पाँच) यान का वर्ग.....
- (छः) यानके साथ हायर
परचेज करार के अधीन है।
5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य
है.....
6. परमिट के अवसान का दिनांक.....
7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर.....
8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की
धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अधीन रहते
हुए होगी।
9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब
विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की
जायेगी.....
10. अन्य शर्तें-
(1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का
उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक
स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)
.....
3. पता-
(एक) स्थायी.....
(दो) वर्तमान.....
4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
(दो) माडल.....
(तीन) चैसिस संख्या.....
(चार) इंजन संख्या.....
(पाँच) यान का वर्ग.....
- (छः) यानके साथ हायर
परचेज करार के अधीन है।
5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य
है.....
6. परमिट के अवसान का दिनांक.....
7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर.....
8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की
धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अधीन रहते
हुए होगी।
9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब
विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की
जायेगी.....
10. अन्य शर्तें-
(1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का
उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक
स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया

- | | |
|--|--|
| <p>जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;</p> <p>(2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;</p> | <p>जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;</p> <p>(2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;</p> |
|--|--|

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र

- (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परमिट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी;
- (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;
- (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा;
- (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है:
- परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।
- (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।
11. कोई अन्य शर्त.....
दिनांक.....

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण
12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और
शर्त के अध्यक्षीन विधिमान्य होगी-

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

- (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परमिट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी;
- (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;
- (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा;
- (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हों, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है:
- परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।
- (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।
11. कोई अन्य शर्त.....
दिनांक.....

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण
12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और
शर्त के अध्यक्षीन विधिमान्य होगी-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक.....

दिनांक.....

सचिव
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

सचिव
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

नवीकरण

यह परमिट एतद्वारा दिनांक
.....से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर
शर्तों के अध्वधीन रहते हुए नवीकृत की जाती
है।

- (1)
(2)
(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर, के
साथ.....
शर्तों के अध्वधीन यह निम्नलिखित

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगी।

दिनांक

सचिव,
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

.....परिवहन प्राधिकरण,
संख्या.....

शर्तों में निम्नलिखित फेर-फार के अध्वधीन
रहते हुए मार्ग/क्षेत्र.....के
लिए प्रतिहस्ताक्षरित-

- (1)
(2)
(3)

दिनांक

सचिव,
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा,
.....तक

नवीकृत किया जाता है।

दिनांक

सचिव,
संभागीय परिवहन

नवीकरण

यह परमिट एतद्वारा दिनांक
.....से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर
शर्तों के अध्वधीन रहते हुए नवीकृत की जाती
है।

- (1)
(2)
(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर, के
साथ.....
शर्तों के अध्वधीन यह निम्नलिखित

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगी।

दिनांक

सचिव,
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

.....परिवहन प्राधिकरण,
संख्या.....

शर्तों में निम्नलिखित फेर-फार के अध्वधीन
रहते हुए मार्ग/क्षेत्र.....के
लिए प्रतिहस्ताक्षरित-

- (1)
(2)
(3)

दिनांक

सचिव,
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा,
.....तक

नवीकृत किया जाता है।

दिनांक

सचिव,
संभागीय परिवहन
प्राधिकरण

प्राधिकरण

8- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर0 29 के स्थान पर, प्रपत्र एस0आर0 29क का
स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् - संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-29क

[नियम 222 घ(1)देखिये]

निजी सेवायान परमिट

.....परिवहन प्राधिकरण
परमिट संख्या

1. धारक का नाम
2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में).....
3. पता-
(क) स्थायी.....
(ख) वर्तमान

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र एस0आर0-29क

[नियम 222 ख(1)देखिये]

निजी सेवायान परमिट

.....परिवहन प्राधिकरण
परमिट संख्या

1. धारक का नाम
2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में).....
3. पता-
(क) स्थायी.....
(ख) वर्तमान

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

4. कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ)
5. क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) जिसके लिए परमिट विधिमान्य है
6. यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस संख्या
1	2	3	4	5

7. विद्यालय स्थल को और वहाँ से लाये जाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति और उनकी अधिकतम संख्या.....
8. परमिट के अवसान का दिनांक
9. शर्तें -
(क) यान का उपयोग केवल परमिट में निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा।
(ख) परमिटधारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाये गये पट्टे या प्लेट या सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊँचाई के शब्द "निजी सेवायान" सुपाठ्य रूप से संप्रदर्शित करेगा।
(ग) परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सका है, अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है अधिकतम भारकुन्तल से अधिक नहीं होगा।
(घ) यान की सुख सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 या तद्दीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवायानों के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाये रखा जायेगा।
(ङ) यान में कोई विज्ञापन सम्बन्धी विषय साधारणतया संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

4. कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ)
5. क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) जिसके लिए परमिट विधिमान्य है.....
6. यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस संख्या
1	2	3	4	5

7. विद्यालय स्थल को और वहाँ से लाये जाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति और उनकी अधिकतम संख्या.....
8. परमिट के अवसान का दिनांक
9. शर्तें -
(क) यान का उपयोग केवल परमिट में निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा।
(ख) परमिटधारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाये गये पट्टे या प्लेट या सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊँचाई के शब्द "निजी सेवायान" सुपाठ्य रूप से संप्रदर्शित करेगा।
(ग) परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सका है, अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है अधिकतम भारकुन्तल से अधिक नहीं होगा।
(घ) यान की सुख सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 या तद्दीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवायानों के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाये रखा जायेगा।
(ङ) यान में कोई विज्ञापन सम्बन्धी विषय साधारणतया संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(च) परमिटधारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है ऐसी कालिक विवरणी, सांख्यिकीय और अन्य सूचना जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

(छ) परमिटधारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा-

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहाँ तक ये परमिटधारक पर लागू होते हों।

(दो) ऐसी कोई अन्य शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भाषीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ज) ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।

(च) परमिटधारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है ऐसी कालिक विवरणी, सांख्यिकीय और अन्य सूचना जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

(छ) परमिटधारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा-

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहाँ तक ये परमिटधारक पर लागू होते हों।

(दो) ऐसी कोई अन्य शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भाषीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ज) ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

10. अन्य कोई शर्तें-

(1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यह कि यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो,

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

10. अन्य कोई शर्तें-

(1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

(2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।

(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।

(4) यह कि यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो,

जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है।

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11. परमिट सम्भाग में भी नीचे दी गयी शर्तों के अध्याधीन विधिमान्य है-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है।

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11. परमिट सम्भाग में भी नीचे दी गयी शर्तों के अध्याधीन विधिमान्य है-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

.....के अधीन रहते

हुए.....तक नवीकृत किया गया।

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

परमिट संख्या.....

निम्नलिखित संशोधन एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुए.....मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपयुक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा,तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता है।

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

.....के अधीन रहते

हुए.....तक नवीकृत किया गया।

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

परमिट संख्या.....

निम्नलिखित संशोधन एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुए.....मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपयुक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा,तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता है।

दिनांक

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

आज्ञा से,
jkts'k dqekj flag]
 प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/2022/526 /XXX-4-2022-17(sa.)-2018, dated May 2, 2022:

No. 11/2022/ 526 /XXX-4-2022-17(sa.)-2018
Dated Lucknow, May 2, 2022

WHEREAS in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the following draft was published in the *Gazette* with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 *vide* notification no. 01/2022/03/XXX-4-2022 -17(sa)-2018, dated 4 January, 2022 as required under sub section (1) of Section 212 of the said Act of 1988;

AND Whereas no objection and suggestion was received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY EIGHTH
 AMENDMENT) RULES, 2022

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Eighth Amendment) Rules, 2022. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the said rules, in rule 222 *for* sub-rules (2) and (3) set out in Column-1 below, the sub-rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :- Amendment of Rule 222 D

COLUMN-1

COLUMN-2

<i>Existing sub-rule</i>	<i>sub-rule as hereby substituted</i>
(2) The diesel/CNG driven private bus (contract carriage) shall not be more than 10 years old from the date of initial registration.	(2) The diesel/CNG driven private bus (contract carriage) shall not be more than 15 years old from the date of initial registration.
(3) The school van, driven by diesel/petrol/CNG or any other clean fuel, shall not be more than 10 years old from the date of initial registration.	(3) The school van, driven by diesel/petrol/CNG, shall not be more than 15 years old from the date of initial registration.
3. In the said rules in rule 222 L, -	Amendment of Rule 222 L
(1) in sub rule (1)	
(i) <i>for</i> clause (b) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely :-	

COLUMN-1

Existing clause

(b) shall have necessarily an emergency gate and an emergency window. The size of the emergency gate will be 150 cms X 120 cms, which may be opened from inside and outside also. The emergency exit window will be at rear side of the vehicle which will be 150 cms X 120 cms size made of tuffened glass which will be fixed in a fixed frame. Adequate arrangement must be kept to break the glass of the emergency exit window.

(ii) *for* clause (j) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1

Existing clause

(j) shall be equipped with seat belts in all seats.

(iii) *after* clause (m), the following clause shall be *inserted*, namely :-

(m-i). shall not carry more number of students than the seating capacity mentioned in the certificate of registration:

Provided that in the case of School Buses, carrying children below the age of twelve years, 1.5 times of the seating capacity shall be permitted.

(iv) *for* clauses (n), (o) and (p) set out in Column-1 below, the clauses as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(b) other than mini and midi buses, shall have an emergency exit on the opposite side of service door. In addition, there shall be an emergency exit on the rear side of bus. However in case of mini and midi buses there shall be minimum one emergency exit and it shall be situated either on the opposite side of service door or at the rear side of the bus. The lower edge of the emergency door shall be at the level of bus floor and top edge shall be at the level of upper edge of window. The width of emergency exit shall be 550 mm.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(j) shall be equipped with seat belts.

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing clause</i>	<i>Clause as hereby substituted</i>
(n) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(n) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
(o) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. It will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(o) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
(p) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel in such bus.	(p) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. One teacher may also travel in such bus as far as possible.

(2) in sub-rule (2), -

(i) for clause (c) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing clause</i>	<i>Clause as hereby substituted</i>
(c) shall have an emergency gate and an emergency window. The size of the emergency gate will be 150 cms X 120 cms, which may be opened from inside and outside both. The emergency exit window will be at rear side of the vehicle which will be 150 cms X 120 cms size made of tuffened glass which will be fixed in a fixed frame. Adequate arrangement must be made to break the glass of the emergency exit window.	(c) other than mini and midi buses, shall have an emergency exit on the opposite side of service door. In addition, there shall be an emergency exit on the rear side of bus. However in case of mini and midi buses there shall be minimum one emergency exit and it shall be situated either on the opposite side of service door or at the rear side of the bus. The lower edge of the emergency door shall be at the level of bus floor and top edge shall be at the level of upper edge of window. The width of emergency exit shall be 550 mm.

(ii) for clause (g) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing clause</i>	<i>Clause as hereby substituted</i>
(g) shall be equipped with seat belts in all seats.	(g) shall be equipped with seat belts.

(iii) after clause (n), the following clause shall be *inserted*, namely :-

(n-i) shall not carry more number of students than the seating capacity mentioned in the certificate of registration:

Provided that in the case of School Buses, carrying children below the age of

twelve years, 1.5 times of the seating capacity shall be permitted.

(iv) for clauses (o), (p) and (q) set out in Column-1 below, the clauses as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1

Existing Clause

(o) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.

(p) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. It will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(o) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.

(p) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.

COLUMN-1

Existing Clause

(q) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel in such bus.

(3) in sub rule (3), -

(i) for clause (d) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1

Existing clause

(d) shall be equipped with first aid box and one fire extinguisher of 05-Kg of BIS mark.

(ii) for clause (f) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1

Existing clause

(f) shall be equipped with seat belts in all seats.

(iii) after clause (h), the following clause shall be *inserted*, namely :-

(h-i). shall not carry more number of students than the seating capacity mentioned in the certificate of registration:

Provided that in the case of School vans, carrying children below the age of twelve years, 1.5 times of the seating capacity shall be permitted.

(iv) for clauses (i), (j) and (k) set out in Column-1 below, the clauses as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(q) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. One teacher may also travel in such bus as far as possible.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(d) shall be equipped with first aid box and one fire extinguisher of 02-Kg of BIS mark.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(f) shall be equipped with seat belts.

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing clause</i>	<i>Clause as hereby substituted</i>
(i) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will be come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(i) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
(j) The provision of CCTV camera in such school vans shall be compulsory. It will be come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(j) The provision of CCTV camera in such school vans shall be compulsory. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
(k) there shall be one attendant in addition to the driver and in case girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel there in such van.	(k) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female.
4. In the said rules, in rule 222 M <i>after</i> clause (b) the following clauses shall be <i>inserted</i> , namely :-	Amendment of Rule 222 M
(b-i) "Midi Bus" means an omni bus having seating capacity 23 to 37.	
(b-ii) "Mini Bus" means an omni bus having seating capacity 13 to 22.	
5. In the second schedule <i>for</i> forms SR-21A and SR-21B set out in Column-1 below, the forms as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely :-	Amendment of forms SR-21A and SR-21B

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing Forms</i>	<i>Forms as hereby substituted</i>
Form SR-21A [See Rule 222 D(2)] <i>Application for permit in respect of a contract carriage</i> (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed) To, The State/Regional Transport Authority In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out: 1. Full name..... 2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing	Form SR-21A [See Rule 222 B(2)] <i>Application for permit in respect of a contract carriage</i> (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed) To, The State/Regional Transport Authority In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said Act in respect of a contract carriage as hereunder set out: 1. Full name..... 2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the

- director as the case may be.....
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc.....
4. Full address:
(a) Permanent.....
(b) Present.....
(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Area or routes for which permit is desired.....
- managing partner or the managing director as the case may be.....
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc.....
4. Full address:
(a) Permanent.....
(b) Present.....
(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Area or routes for which permit is desired.....

COLUMN-1*Existing Forms*

6. The type of the vehicle, its model and registration mark.....

7. Registered seating capacity.....

8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served.....

9. Whether contract is entered with school – Yes/No

10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:

(a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

(b) Any other vehicle

11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details

12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer)

13. Details of arrangements made

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

6. The type of the vehicle, its model and registration mark.....

7. Registered seating capacity.....

8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served.....

9. Whether contract is entered with school – Yes/No

10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:

(a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

(b) Any other vehicle

11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details

12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer)

for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage

14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle

15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs.....in the shape of non-judicial stamps.

16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration.

17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that

13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage

14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle

15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs.....in the shape of non-judicial stamps.

16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration.

17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they

COLUMN-1

Existing Forms

they *inter alia* shall be conditions of the permits issued to me/us.

Date:.....

Signature or thumb-impression
of applicant (s)

*Strike out whichever is not applicable.

To be filled in by the office of the
Transport Authority

1. Date of receipt.....
2. Date of application.....
3. Date of.....
Circulation to members.....
Consideration at meeting.....
Decision by Chairman
4. Granted.....
Granted in modified form.....
Rejected.....
5. Number of permit.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-1

Existing Forms

Form SR-21B

[See Rule 222 D (3)]

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us.

Date:.....

Signature or thumb-impression
of applicant (s)

*Strike out whichever is not applicable.

To be filled in by the office of the
Transport Authority

1. Date of receipt.....
2. Date of application.....
3. Date of.....
Circulation to members.....
Consideration at meeting.....
Decision by Chairman
4. Granted.....
Granted in modified form.....
Rejected.....
5. Number of permit.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

Form SR-21B

[See Rule 222 B (3)]

Application for permit in respect of a contract carriage

(If the contract between the vehicle owner and school or the guardian is signed)

To,

The State/Regional Transport Authority

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

Application for permit in respect of a contract carriage

(If the contract between the vehicle owner and school or the guardian is signed)

To,

The State/Regional Transport Authority

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said Act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

COLUMN-1*Existing Forms*

1. Full name.....
2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be.....
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc.....
4. Full address:
(a) Permanent.....
(b) Present.....

(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).

5. Area or routes for which permit is desired.....
6. The type of the vehicle, its model and registration

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

1. Full name.....
2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be.....
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc.....
4. Full address:
(a) Permanent.....
(b) Present.....

(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).

5. Area or routes for which permit is desired.....
6. The type of the vehicle, its model and registration

- mark.....
7. Registered seating capacity.....
8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served.....
9. Whether contract is signed with school or guardians -
10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:

(a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

COLUMN-1

Existing Forms

(b) Any other vehicle

11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details.
12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer).
13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage.
14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle.
15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs.....in the shape of non-judicial stamps.
16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We

- mark.....
7. Registered seating capacity.....
8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served.....
9. Whether contract is signed with school or guardians -
10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:

(a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

(b) Any other vehicle

11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details.
12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer).
13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage.
14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle.
15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs.....in the shape of non-judicial stamps.
16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We

understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration.	understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration.
17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they <i>inter alia</i> shall be conditions of the permits issued to me/us.	17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they <i>inter alia</i> shall be conditions of the permits issued to me/us.
Date:.....	Date:.....
Signature or thumb-impression of applicant(s)	Signature or thumb-impression of applicant(s)
*Strike out whichever is not applicable.	*Strike out whichever is not applicable.
To be filled in by the office of the Transport Authority	To be filled in by the office of the Transport Authority
1. Date of receipt.....	1. Date of receipt.....
2. Date of application.....	2. Date of application.....
3. Date of.....	3. Date of.....

COLUMN-1

Existing Forms

Circulation to members

Consideration at meeting.....

Decision by Chairman.....

4. Granted.....

.....

Granted in modified form.....

.....

Rejected.....

.....

5. Number of permit.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

Circulation to members

Consideration at meeting.....

Decision by Chairman.....

4. Granted.....

.....

Granted in modified form.....

.....

Rejected.....

.....

5. Number of permit.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

Amendment of form SR-23A

6. In the second schedule for form SR-23A set out in Column-1 below, the form as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely : -

COLUMN-1

Existing forms

Form SR-23A

[See Rule 222 D (1)]

Application for grant of permit to the educational Institution bus

To,

Regional Transport Authority,

.....

In accordance with the provisions of

COLUMN-2

forms as hereby substituted

Form SR-23A

[See Rule 222 B (1)]

Application for grant of permit to the educational Institution bus

To,

Regional Transport Authority,

.....

In accordance with the provisions of

Section 69, 70 and 71 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for a school bus/school van permit under section 66 of the act.	Section 69, 70 and 71 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for a school bus/school van permit under section 66 of the act.
1. Full name.....	1. Full name.....
2. Name of the father/husband	2. Name of the father/husband
3. Age.....	3. Age.....
4. Full address: (a) Permanent..... (b) Present.....	4. Full address: (a) Permanent..... (b) Present.....
(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual	(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual

COLUMN-1*Existing Forms*

- and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Phone no.....
 6. Area or routes for which permit is desired.....
 7. School name and Time
1.....
2.....
3.....
4.....
 8. Seating capacity.....
 9. The type of the vehicle, its model and registration mark.....
 10. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle
 11. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

- and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Phone no.....
 6. Area or routes for which permit is desired.....
 7. School name and Time
1.....
2.....
3.....
4.....
 - 7A. The manner in which purpose of carrying persons, otherwise than for hire or reward or in connection with the trade or business carried on by the applicant, will be served by the vehicle
 8. Seating capacity.....
 9. The type of the vehicle, its model and registration mark.....
 10. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle
 11. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We

will purchase and present the vehicle.	will purchase and present the vehicle.
12. I/We hereby, declare that above statements are true.	12. I/We hereby, declare that above statements are true.
Date:.....	Date:.....
Place:.....	Place:.....
Signature or thumb-impression of applicant(s)	Signature or thumb-impression of applicant(s)
To be filled in by the office of the Regional Transport Authority	To be filled in by the office of the Regional Transport Authority
1. Date of receipt.....	1. Date of receipt.....
2. Date of consideration at meeting.....	2. Date of consideration at meeting.....
3. Date.....Granted/Rejected.	3. Date.....Granted/Rejected.
4. Number of permit.....	4. Number of permit.....
Secretary,Regional Transport Authority	Secretary,Regional Transport Authority

Amendment
of forms
SR-27A and
SR-27B

7. In the second schedule for forms SR-27A and SR-27B set out in Column-1 below, the forms as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

<u>COLUMN-1</u> <i>Existing forms</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Forms as hereby substituted</i>
Form SR-27A [See rule 222 D(2)]	Form SR-27A [See rule 222 B(2)]
<i>Permit in respect of contract carriage</i> (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed)Transport Authority Permit No.....	<i>Permit in respect of contract carriage</i> (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed)Transport Authority Permit No.....
1- Name of the Holder.....	1- Name of the Holder.....
2- Father's/Husband's name..... (in the case of an individual)	2- Father's/Husband's name..... (in the case of an individual)
3- Address: (a) Permanent..... (b) Present.....	3- Address: (a) Permanent..... (b) Present.....
4- (i) Registration Mark of the Vehicle..... (ii) Model..... (iii) Chassis Number..... (iv) Engine Number..... (v) Class of vehicle..... (vi) The vehicle is under hire-purchase agreement with.....	4- (i) Registration Mark of the Vehicle..... (ii) Model..... (iii) Chassis Number..... (iv) Engine Number..... (v) Class of vehicle..... (vi) The vehicle is under hire-purchase agreement with.....
5- Route/Area for which the permit is valid.....	5- Route/Area for which the permit is valid.....
6- Date of expiry of the permit.....	6- Date of expiry of the permit.....
7- Rate of fare per kilometer.....	7- Rate of fare per kilometer.....
8- This permit shall be subject to the	8- This permit shall be subject to the

conditions laid down in section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988.....	conditions laid down in section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988.....
9- The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the Transport Authority.....	9- The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the Transport Authority.....
10- Other conditions:	10- Other conditions:
(1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;	(1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;

COLUMN-1*Existing forms*

- (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;
- (3) That save as provided in sub-section (2) of section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:
Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

- (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;
- (3) That save as provided in sub-section (2) of section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:
Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of

- less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.
- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.
- 11- Any other conditions.....
Date.....

Secretary,
.....Transport Authority.

12- The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date.....
Secretary,
.....Regional Transport Authority

- less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.
- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.
- 11- Any other conditions.....
Date.....

Secretary,
.....Transport Authority.

12- The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date.....
Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-1*Existing forms*

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto
.....day of
.....subject to
following further conditions-
(1)
(2)
(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter- signature.

Date.....
Secretary,
.....Regional Transport Authority
COUNTER-SIGNATURE
.....Transport Authority
No.....

Counter-signed for
Route/Area.....
subject to the following variation of conditions:

(1)
(2)
(3)
Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE
The above counter-signature is, hereby,
renewed up to.....
Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-1*Existing forms*COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto
.....day of
.....subject to
following further conditions-
(1)
(2)
(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date.....
Secretary,
.....Regional Transport Authority
COUNTER-SIGNATURE
.....Transport Authority
No.....

Counter-signed for
Route/Area.....
subject to the following variation of conditions:

(1)
(2)
(3)
Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE
The above counter-signature is, hereby,
renewed up to.....
Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

Form SR-27B

[See rule 222 D (3)]

Permit in respect of contract carriage
(If the contract between the vehicle
owner and school or guardian is
signed)

..... Transport Authority

Permit

No.....

1. Name of the Holder.....

2. Father's/Husband's

name.....

(in the case of an individual)

3. Address:

(a) Permanent.....

(b) Present.....

4. (i) Registration Mark of the
Vehicle.....

(ii) Model.....

Form SR-27B

[See rule 222 B (3)]

Permit in respect of contract carriage
(If the contract between the vehicle
owner and school or guardian is
signed)

..... Transport Authority

Permit

No.....

1. Name of the Holder.....

2. Father's/Husband's

name.....

(in the case of an individual)

3. Address:

(a) Permanent.....

(b) Present.....

4. (i) Registration Mark of the
Vehicle.....

(ii) Model.....

COLUMN-1*Existing forms*

(iii) Chassis Number.....

(iv) Engine Number.....

(v) Class of vehicle.....

(vi) The vehicle is under hire-
purchase agreement with.....5. Route/Area for which the permit is
valid.....6. Date of expiry of the
permit.....7. Rate of fare per
kilometer.....8. This permit shall be subject to the
conditions laid down in section 84
of the Motor Vehicles Act,
1988.....9. The records to be maintained and
the date on which returns are to be
submitted to the Transport
Authority...

10. Other conditions:

(1) That the vehicle covered by such a
permit shall in no case be used in
any public place during the period
in which the registration certificate
and token relating to it are or have
been surrendered in accordanceCOLUMN-2*Forms as hereby substituted*

(iii) Chassis Number.....

(iv) Engine Number.....

(v) Class of vehicle.....

(vi) The vehicle is under hire-
purchase agreement with.....5. Route/Area for which the permit is
valid...6. Date of expiry of the
permit.....7. Rate of fare per
kilometer.....8. This permit shall be subject to the
conditions laid down in section 84
of the Motor Vehicles Act,
1988.....9. The records to be maintained and
the date on which returns are to be
submitted to the Transport
Authority.....

10. Other conditions:

(1) That the vehicle covered by such a
permit shall in no case be used in
any public place during the period
in which the registration certificate
and token relating to it are or have
been surrendered in accordance

- | | |
|---|---|
| <p>with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;</p> <p>(2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;</p> | <p>with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;</p> <p>(2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax.</p> |
|---|---|

COLUMN-1*Existing forms*

- (3) That save as provided in sub-section (2) of section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

- (3) That save as provided in sub-section (2) of section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the

vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. Any other conditions.....

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

12. The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto

.....day of

.....subject to following further

vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. Any other conditions.....

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

12. The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto

.....day of

.....subject to following further

COLUMN-1

Existing forms

conditions-

(1)

(2)

(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

.....Transport Authority

No.....

Counter-signed for

Route/Area.....

subject to the following variation

of conditions:

(1)

(2)

(3)

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER- SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby,

renewed up to.....

Date.....

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

conditions-

(1)

(2)

(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

.....Transport Authority

No.....

Counter-signed for

Route/Area.....

subject to the following variation

of conditions:

(1)

(2)

(3)

Date.....

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby,

renewed up to.....

Date.....

<p>Secretary,Regional Transport Authority</p> <p>8. In the second schedule <i>for</i> form SR-29A set out in Column-1 below, the form as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i>, namely : -</p> <p style="text-align: center;"><u>COLUMN-1</u> <i>Existing forms</i> Form SR-29A [See rule 222 D (1)] <i>Private Service Vehicle Permit</i>Transport Authority Permit No..... 1. Name of the Holder..... 2. Father's/Husband's name..... (in the case of an individual)</p>	<p>Secretary,Regional Transport Authority</p> <p style="text-align: right;">Amendment of form SR-29A</p> <p style="text-align: center;"><u>COLUMN-2</u> <i>Forms as hereby substituted</i> Form SR-29A [See rule 222 B (1)] <i>Private Service Vehicle Permit</i>Transport Authority Permit No..... 1. Name of the Holder..... 2. Father's/Husband's name..... (in the case of an individual)</p>
---	--

COLUMN-1
Existing forms

3. Address:
 (a) Permanent.....
 (b) Present.....

4. Place and nature of
 business.....
 (with postal address).....

5. Area or route(s) for which permit is valid.....

6. Type and seating capacity of the vehicle:

Registration mark of the vehicles	Type	Seating Capacity	Gross vehicle weight	Chassis No. of the vehicle
1	2	3	4	5

7. Nature and maximum number of persons to be carried to and from the place of school.....

8. Date of expiry of the permit.....

9. Conditions:
 (a) The vehicle shall be used only in the area on the route or routes specified in the permit;
 (b) The holder of the permit shall legibly display the words "PRIVATE SERVICE VEHICLE", not less than 10 cms. high in black on vehicle ground on a board or place affixed to the form of the vehicle at the level of the roof;
 (c) The maximum number of

COLUMN-2
Forms as hereby substituted

3. Address:
 (a) Permanent.....
 (b) Present.....

4. Place and nature of.....
 business.....
 (with postal address).....

5. Area or route(s) for which permit is valid.....

6. Type and seating capacity of the vehicle:

Registration mark of the vehicles	Type	Seating Capacity	Gross vehicle weight	Chassis No. of the vehicle
1	2	3	4	5

7. Nature and maximum number of persons to be carried to and from the place of school.....

8. Date of expiry of the permit.....

9. Conditions:
 (a) The vehicle shall be used only in the area on the route or routes specified in the permit;
 (b) The holder of the permit shall legibly display the words "PRIVATE SERVICE VEHICLE", not less than 10 cms. high in black on vehicle ground on a board or place affixed to the form of the vehicle at the level of the roof;
 (c) The maximum number of

persons that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceedand the maximum weight of luggage that may be carried shall not exceed.....quintals.

(d) Standards of comforts, cleanliness and maintenance of the vehicles as specified for public service vehicles in the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made thereunder shall be maintained in the vehicle;

(e) No advertising matter shall ordinarily be displayed on the vehicle.

(f) The holder of the permit shall furnish to the Transport Authority by which the permit is issued, such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, specify;

persons that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceedand the maximum weight of luggage that may be carried shall not exceed.....quintals.

(d) Standards of comforts, cleanliness and maintenance of the vehicles as specified for public service vehicles in the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made thereunder shall be maintained in the vehicle;

(e) No advertising matter shall ordinarily be displayed on the vehicle.

(f) The holder of the permit shall furnish to the Transport Authority by which the permit is issued, such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, specify;

COLUMN-1

Existing forms

(g) The holder of the permit shall also abide by-

(i) the conditions prescribed under section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988 and other provisions of the Act, insofar as they apply to the holder of the permit;

(ii) any other condition or conditions that may be specified by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority;

(h) The Transport Authority by which the permit is issued may, after giving notice of not less than one month may vary the conditions of the permit or attach thereto any further conditions.

10. Any other conditions:

(1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

(g) The holder of the permit shall also abide by-

(i) the conditions prescribed under section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988 and other provisions of the Act, insofar as they apply to the holder of the permit;

(ii) any other condition or conditions that may be specified by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority;

(h) The Transport Authority by which the permit is issued may, after giving notice of not less than one month may vary the conditions of the permit or attach thereto any further conditions.

10. Any other conditions:

(1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or

- | | |
|--|---|
| <p>under or have been suspended or cancelled.;</p> <p>(2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;</p> <p>(3) That save as provided in sub-section (2) of section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;</p> | <p>have been suspended or cancelled.;</p> <p>(2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;</p> <p>(3) That save as provided in sub-section (2) of section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;</p> |
|--|---|

COLUMN-1*Existing forms*

- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

COLUMN-2*Forms as hereby substituted*

- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. The permit is valid also in the regions and subject to the conditions set out below:

Region	Route/ Area	Conditions
1	2	3

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWALS

Renewed upto

Subject to

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

11. The permit is valid also in the regions and subject to the conditions set out below:

Region	Route/ Area	Conditions
1	2	3

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWALS

Renewed upto

Subject to

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-1

Existing forms

COUNTER-SIGNATURE

Permit No.....

Counter-signed for Route/Area subject to the following variation of conditions:

.....
.....
.....

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby, renewed up to..... subject to the following conditions:

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COLUMN-2

Forms as hereby substituted

COUNTER-SIGNATURE

Permit No.....

Counter-signed for Route/Area subject to the following variation of conditions:

.....
.....
.....

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby, renewed up to..... subject to the following conditions:

Date.....

Secretary,
.....Regional Transport Authority

By order,
RAJESH KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 41 राजपत्र -2022-(71)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० परिवहन-2022-(72)-600 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।